

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन का इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट, आर्थिक बहाली में वृद्धि करेगा

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (4 सितम्बर, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, गतिशील स्टार्टअप समुदाय में वृद्धि करने, लोकल प्रतिभाओं को विकसित करने और एंटरप्रीनियर्स को सहयोग देने के लिए, डाउनटाउन ब्रैम्पटन के केंद्र में, इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Innovation District) बना रही है।

अगले बुधवार, ब्रैम्पटन के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में, नए [रायर्सन वेंचर ज़ोन \(Ryerson Venture Zone\)](#) की अधिकारिक शुरुआत होगी। यह नया इनक्यूबेटर, ब्रैम्पटन में नए कारोबारों का निर्माण करने और उनमें वृद्धि करने, उच्च-कौशल वाली नौकरियां पैदा करने और नौकरी करने वाली प्रतिभाओं को विकसित करने में मदद के लिए समर्पित है।

इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट, सिटी की कोविड-19 (COVID-19) [इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी \(Economic Recovery Strategy\)](#) में मुख्य पहलकदमी है। यह आने वाले महीनों और वर्षों में, विकसित होना जारी रखेगी।

इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के साझेदार

रायर्सन वेंचर ज़ोन (Ryerson Venture Zone) के अलावा, एंटरप्रीनियर संबंधी, कारोबार इनक्यूबेशन और विकसित होने वाले कुछ स्थान, ब्रैम्पटन के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़े हैं, इनमें शामिल हैं:

- [ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर \(बी.ई.सी.\) \(Brampton Entrepreneur Centre\) \(BEC\)](#) को-वर्किंग स्थान और छोटे कारोबार संबंधी संसाधन - 4,500 वर्ग फुट स्टोरफ्रंट जैसी बड़ी जगह पर स्थित, यह को-वर्किंग स्थान, रचनात्मकता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। बी.ई.सी. (BEC), बार-बार होने वाले सेमिनारों का आयोजन करता है और लोकल एंटरप्रीनियर्स तथा इनोवेटर्स के लिए सलाहकारों के साथ, मुफ्त बिजनेस प्लान समीक्षाओं और मशिवरों की पेशकश करता है।
- [कैटालिस्ट साइबर गतिवर्द्धक \(रोजर्स साइबरसिक्योर कैटालिस्ट और रायर्सन डी.एम.जेड. की अगुआई में\)](#) – यह गतिवर्द्धक, छोटी कंपनियों और अपने कारोबार को बढ़ाने वाली कंपनियों के लिए, कैनेडा का पहला साइबरसिक्योरिटी (Cybersecurity) गतिवर्द्धक है। यह गतिवर्द्धक, [रोजर्स साइबर सिक्योर कैटालिस्ट \(Rogers Cyber Secure Catalyst\)](#) (कैनेडा की पहली साइबर रेंज (Cyber Range), साइबरसिक्योरिटी ट्रेनिंग और रिसर्च व डेवलेपमेंट सहित) के अन्य आधारों के साथ मिलकर, ब्रैम्पटन को, साइबरसिक्योरिटी के लिए कैनेडा का केंद्र (हब) बनने की स्थिति में लाता है।
- [रिसर्च इनोवेशन कमर्शिलाइज़ेशन \(आर.आई.सी.\) सेंटर \(Research Innovation Commercialization \(RIC\) Centre\)](#) – एक विशेष बिजनेस इनक्यूबेशन और गतिवर्द्धक स्थान, आर.आई.सी. सेंटर (RIC Centre), छोटे कारोबारियों की आगे बढ़ने में और अपने कारोबार को अगले स्तर तक ले जाने में, उनकी मदद करता है। आर.आई.सी. सेंटर, तकनीकी कंपनियों के लिए

गतिशील स्रोत है। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things), क्लीनटेक (CleanTech) और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग (Advanced Manufacturing) के क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों के विशेष स्रोत हैं।

- ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड (Brampton Board of Trade) और डाउनटाउन ब्रैम्पटन बिजनेस इम्प्रूवमेंट एरिया (बी.आई.ए.) (Downtown Brampton Business Improvement Area) (BIA) भी, इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट बनाने में मुख्य साझेदार हैं।

इस वर्ष के अंत में, अन्य साझेदारों के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ने की संभावना है।

प्रतिभा संबंधी विकास

इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट, ग्रेटर टोरोंटो एरिया (जी.टी.ए.) (Greater Toronto Area) (GTA) के आसपास के प्रतिभावान व्यक्तियों को, अतिरिक्त कौशल प्रदान करने या नए कौशल सिखाने के लिए, शिक्षा और ट्रेनिंग के अवसर भी पेश करता है। रायरसन यूनिवर्सिटी चेंग स्कूल ऑफ कंटीन्यूइंग एजुकेशन (Ryerson University Chang School of Continuing Education) और रोजर्स साइबरसिक्योर कैटालिस्ट से लेकर, शेरिडन कॉलेज (Sheridan College) और अल्गोमा यूनिवर्सिटी (Algoma University) तक, इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट, प्रतिभा संबंधी विकास के लिए विकासशील केंद्र है।

इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी (अर्थव्यवस्था को बहाल करने की रणनीति)

13 मई को, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने लोकल अर्थव्यवस्था को फिर से बहाल करने में आगे बढ़ने के लिए, [ब्रैम्पटन की इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी \(Brampton's Economic Recovery Strategy\)](#) को मंजूरी दी थी। इस रणनीति का उद्देश्य, इसकी चार जरूरी चीजों: नवीनता, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रीनियरशिप, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और कला, संस्कृति व टूरिज़्म के मुताबिक, तुरंत और लंबी-अवधि की कार्रवाईयों को आगे बढ़ाकर, ब्रैम्पटन की अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बहाल करने के लिए, इसे मुश्किलों से बाहर निकालना और बेहतर स्थिति में लाना है।

हवाले

“ब्रैम्पटन, हमारे शहर में मज़बूत इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट बनाने की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कैंनेडा के इनोवेशन कोरिडोर के केंद्र में हमारा स्थान हमें, नए निवेश के लिए आदर्श स्थान की स्थिति में लाता है। जैसे-जैसे हमारा इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट पुराना होता जाएगा, हम कारोबारियों को उनके सफर के प्रत्येक पड़ाव में सहयोग प्रदान करने योग्य होते जाएंगे।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारे इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट का लगातार विकास, हमारी इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी में मुख्य कार्रवाई है और रायरसन वेंचर ज़ोन, हमारे विकासशील डिस्ट्रिक्ट में मुख्य वृद्धि है। जैसे-जैसे हम अपने शहर को, कोविड-19 महामारी से बाहर लाने में आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपने इनोवेशन इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने और सबसे बढ़िया इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 व 5; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चर; को-चेयर, मेयर्स कोविड-19 इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“जैसे-जैसे हम इस महामारी से बाहर आकर, हमारी लोकल अर्थव्यवस्था को दुबारा शुरू कर रहे हैं, हम एंटरप्रीनियर्स और संभावी निवेशकों का, हमारे विकासशील इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट में जुड़ने के लिए स्वागत करते हैं। इसके कई कारण हैं कि ब्रैम्पटन, कारोबार स्थापित करने के लिए आदर्श जगह क्यों है। हम, स्टेकहोल्डर्स के हमारे साथ जुड़ने के लिए, उनके साथ साझेदारी करने और गति का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हैं।”

- *माइकल प्लेशी (Michael Palleschi), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 2 व 6; को-चेयर, मेयर्स कोविड-19 इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“कैनेडा के इनोवेशन कोरिडोर के बीच में हमारे मुख्य स्थान के साथ, ब्रैम्पटन, नवीनता में ग्लोबल लीडर बनने के लक्ष्य के साथ, अपने इनोवेशन ईकोसिस्टम में वृद्धि कर रहा है। हमारा स्टाफ साझेदारियां करने और ब्रैम्पटन को, एंटरप्रीनियर्स और कारोबारियों के लिए, सर्वोत्तम जगह बनाने के लिए, ज़रूरी स्थितियां स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca